



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार 11 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 20, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 763 ई-2/तेरह-2024-232554

लखनऊ, 11 सितम्बर, 2024

कार्यालय -ज्ञाप

प0आ०-247

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति के गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति संख्या 9/2622/580 ई-2/तेरह-2022-19-2010, दिनांक 3 अप्रैल, 2022 व संशोधन आदेश दिनांक 17 जून, 2022 को अवक्रमित करते हुए, उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति नियमावली, 1965 (यथासंशोधित) के नियम 3, 5 व 6 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 3 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, शीरे के संग्रहण, सम्भरण (आपूर्ति) तथा श्रेणीकरण से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिए इस कार्यालय-ज्ञाप के प्रकाशित होने के दिनांक से, एक परामर्श समिति संगठित करती हैं। उक्त समिति में निम्नांकित व्यक्ति होंगे:-

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| 1 | शीरा नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश   | (पदेन अध्यक्ष) |
| 2 | मुख्यालय पर नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जिनके द्वारा शीरा सम्बन्धी कार्य देखा जा रहा है। | पदेन सचिव      |
| 3 | उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक, उद्योग के पद से निम्न स्तर का न हो।            | पदेन सदस्य     |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 4  | गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो गन्ना उप आयुक्त के पद से निम्न स्तर का न हो।                      | पदेन सदस्य   |
| 5  | उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि।  | अध्यक्ष, यू0पी0 शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403 चिंटल हाउस, 16 स्टेशन रोड, लखनऊ।                              |
| 6  | उत्तर प्रदेश आसवक संघ का एक प्रतिनिधि।  | बिजनेस हेड, इण्डिया ग्लाइकॉल लि0, गीडा, गोरखपुर।   |
| 7  | उत्तर प्रदेश अल्कोहल वेस्ट इण्डस्ट्रीज, डेवलेपमेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।  | कार्यकारी उपाध्यक्ष, जुबिलेन्ट इनग्रेविया लि0, अमरोहा।   |
| 8  | मेसर्स सैफ यीस्ट कम्पनी प्रा0लि0 101 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सण्डीला, हरदोई का एक प्रतिनिधि।         | डायरेक्टर, मेसर्स सैफ यीस्ट कम्पनी प्रा0लि0 101 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सण्डीला, हरदोई। |
| 9  | प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो सलाहाकार पद से निम्न स्तर का न हो।             | पदेन सदस्य   |
| 10 | प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप प्रबन्ध निदेशक पद से निम्न स्तर का न हो। | पदेन सदस्य   |

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 264 राजपत्र-2024-(695)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 आबकारी-2024-(696)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।